

2060111

SECOND SESSION

Q.B. No.

द्वितीय पाली

2017

प्रश्न-पुस्तिका सीरीज़
Question Booklet Seriesरोल नं०
Roll No.

(अंकों में / in figures)

रोल नं०
Roll No. _____
(शब्दों में / in words)समय : 2:30 घण्टे
Time : 2:30 Hoursपूर्णांक : 150
Max. Marks : 150

C

जब तक कहा न जाए, इस प्रश्न-पुस्तिका को न खोलें।

Do not open the booklet until you are told to do so.

प्रश्नों के उत्तर के लिए केवल काले/नीले बॉल-प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करें।

To mark answer use black/blue ballpoint pen only.

अभ्यर्थी उत्तर-पत्रक पर उत्तर देने से पहले सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

Candidate must read all the instructions carefully before writing the answers.

आपको अपने सभी उत्तर केवल OMR उत्तर-पत्रक पर ही देने हैं। परीक्षा के उपरांत उत्तर-पत्रक परिवीक्षक को लौटा दें।

You have to mark your answer on OMR Answer Sheet only. After the examination is over, hand over the Answer Sheet to the Invigilator.

महत्त्वपूर्ण अनुदेश		IMPORTANT INSTRUCTIONS	
1. सभी प्रश्नों के उत्तर दें। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।		1. Answer all questions. All questions carry equal marks.	
2. OMR उत्तर-पत्रक पर दिए गए स्थान पर अभ्यर्थी अपना संवर्ग (category), रोल नं०, रजिस्ट्रेशन नं०, प्रश्न-पुस्तिका सीरीज़ अंकित करें। भाषा-II के अंतर्गत अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से जो भाषा विकल्प के रूप में आपने रजिस्ट्रेशन में दी हो, उसका ही चयन करें तथा OMR उत्तर-पत्रक पर अंकित करें अन्यथा उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।		2. The candidate should indicate his Category, Roll No., Registration No., Question Booklet Series at the space provided on OMR Answer Sheet. For Language-II from English, Urdu or Sanskrit, choose only one language which you have selected as an option in your registration and mark on the OMR Answer Sheet otherwise the Answer Sheet will not be evaluated and the candidate will be solely responsible for it.	
3. इस प्रश्न-पुस्तिका में 150 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। अभ्यर्थी सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए जैसा कि नीचे दिखाया गया है, उनमें से केवल एक गोला अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर काले/नीले बॉल-प्वाइंट पेन से पूरा गहरा कर दें : उदाहरण : ① ② ③ ④, जहाँ (3) सही उत्तर है। एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा एवं उसे जाँचा नहीं जाएगा।		3. This Question Booklet contains 150 questions. Each question has four alternative answers. The candidate has to darken only one circle/bubble on the answer sheet using black/blue ballpoint pen indicating the correct answer as shown below : Example : ① ② ③ ④, where (3) is the correct answer. If more than one answer are marked, it would be treated as wrong answer and it will not be examined.	
4. इस प्रश्न-पुस्तिका में कुल चार भाग हैं, जिसमें प्रथम तीन भाग सभी के लिए अनिवार्य हैं। भाग-III में से भाषा-II के अंतर्गत किसी एक भाषा का चयन कर उसके समस्त प्रश्नों के उत्तर दें। भाग-IV विषय विशेष से सम्बन्धित है। गणित एवं विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को भाग-IV (क) के प्रश्न करने हैं तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों को भाग-IV (ख) के प्रश्न करने हैं। समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।		4. This Question Booklet contains Four Parts wherein first three parts are compulsory for all. Attempt all the questions selecting any one language from Language-II in Part-III. Part-IV is related to special subject. Candidates who opted for Mathematics and Science have to attempt questions of Part-IV (A) and rest of the candidates have to attempt questions of Part-IV (B). All questions are multiple-choice types. There will be no negative marking.	
5. इस प्रश्न-पुस्तिका में निम्न भाग हैं :		5. This Question Booklet consists of the following Parts :	
भाग-I : बाल विकास एवं शिक्षण विधि प्र० सं० 1-30		Part-I : Child Development and Teaching Method Q. Nos. 1-30	
भाग-II : भाषा-I : हिन्दी प्र० सं० 31-60		Part-II : Language-I : Hindi Q. Nos. 31-60	
भाग-III : भाषा-II : अंग्रेजी प्र० सं० 61-90		Part-III : Language-II : English Q. Nos. 61-90	
अथवा उर्दू प्र० सं० 61-90		OR Urdu Q. Nos. 61-90	
अथवा संस्कृत प्र० सं० 61-90		OR Sanskrit Q. Nos. 61-90	
भाग-IV : (क) गणित एवं विज्ञान प्र० सं० 91-150		Part-IV : (A) Mathematics and Science Q. Nos. 91-150	
अथवा (ख) सामाजिक अध्ययन/अन्य विषय प्र० सं० 91-150		OR (B) Social Studies/ Other Subjects Q. Nos. 91-150	
6. प्रश्न-पुस्तिका के कवर पेज पर एवं अंदर कुछ भी न लिखें।		6. Do not write anything on the cover page and inside the question booklet.	
7. प्रश्न-पुस्तिका खोलने के तुरंत बाद जाँच करके देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भली-भाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्न-पुस्तिका में कोई त्रुटि हो, तो परिवीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज़ व कोड की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लें।		7. If you happen to find that the booklet issued to you does not have all the pages properly printed or it has any other deficiency, then you need to approach the invigilator to get another booklet of same series and code.	
8. OMR शीट में निर्धारित स्थान पर हल किए गए प्रश्नों की संख्या शब्दों तथा अंकों में अवश्य उल्लिखित करें।		8. The number of questions attempted must be written in words and figures in the specified place on the OMR sheet.	
9. यदि हिन्दी भाषा में कोई संदेह हो, तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जाएगा।		9. In case of any ambiguity in Hindi version, English version shall be considered authentic.	

C



Evening

(Read the OMR instructions on the last page of this booklet.)
(इस पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ में दिए हुए OMR निर्देश को पढ़ें।)

SEAL

भाग—I / PART—I

बाल विकास एवं शिक्षण विधि

CHILD DEVELOPMENT AND TEACHING METHOD

1. अधिगम वक्र में पठार बनता है
 - (1) परिपक्वता के कारण
 - (2) अभिप्रेरणा के कारण
 - (3) थकान के कारण
 - (4) अभिरुचि के कारण
2. दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है?
 - (1) अधिगम की गति
 - (2) अधिगम-अन्तरण
 - (3) सृजनात्मकता
 - (4) अभिरुचि
3. क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है?
 - (1) बुद्धि
 - (2) व्यक्तित्व
 - (3) अभिक्षमता
 - (4) अभिरुचि
4. निम्न में कौन-सा शेष से भिन्न है?
 - (1) टी० ए० टी०
 - (2) 16-पी० एफ०
 - (3) रेवेन का परीक्षण
 - (4) डॉ-ए-मैन परीक्षण
5. 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माधिका है
 - (1) 8
 - (2) 9
 - (3) 10
 - (4) 9.5
6. सूझ या अन्तर्दृष्टि के सिद्धान्त का प्रतिपादन किसने किया है?
 - (1) थॉर्नडाइक
 - (2) गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक
 - (3) हेगार्टी
 - (4) स्किनर
7. मैक्डूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से सम्बद्ध होता है
 - (1) संज्ञान
 - (2) संवेग
 - (3) संवेदना
 - (4) चिन्तन
1. Plateau in learning curve is caused due to
 - (1) maturation
 - (2) motivation
 - (3) fatigue
 - (4) interest
2. Mirror drawing test is used to measure
 - (1) rate of learning
 - (2) transfer of learning
 - (3) creativity
 - (4) interest
3. Cloud picture test is used to measure which of the following?
 - (1) Intelligence
 - (2) Personality
 - (3) Aptitude
 - (4) Interest
4. Find the odd one.
 - (1) TAT
 - (2) 16-PF
 - (3) Raven's test
 - (4) Draw-a-Man test
5. The median of 7, 8, 9, 10, 11, 12 is
 - (1) 8
 - (2) 9
 - (3) 10
 - (4) 9.5
6. Who has propounded the theory of insight?
 - (1) Thorndike
 - (2) Gestalt Psychologist
 - (3) Hegarty
 - (4) Skinner
7. According to McDougall, every instinct is associated with
 - (1) cognition
 - (2) emotion
 - (3) sensation
 - (4) thinking

8. पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है

- (1) संवेदना
- (2) प्रत्यक्षज्ञान
- (3) अभिप्रेरणा
- (4) कल्पना

9. पाँच वर्ष के मोहन की मानसिक आयु आठ वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है?

- (1) 150
- (2) 160
- (3) 140
- (4) 135

10. कौन-सा बुद्धि लब्धि स्तर मन्दबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षणयोग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है?

- (1) 70-79
- (2) 50-69
- (3) 36-49
- (4) 35 एवं निम्न

11. रोशाक इंकब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है?

- (1) व्यक्तित्व
- (2) बुद्धि
- (3) अभिरुचि
- (4) अभिक्षमता

12. निम्न में से कौन-सा विस्मृति का कारण नहीं है?

- (1) सीखने में कमी
- (2) स्मरण करने की इच्छा
- (3) मानसिक द्वन्द्व
- (4) सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ

13. वह विज्ञान, जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से सम्बन्धित है, कहलाता है

- (1) सांख्यिकी
- (2) गणित
- (3) ज्यामिति
- (4) सम्भाव्यता

8. Giving the meaning to sensation on the basis of past experience is called

- (1) sensation
- (2) perception
- (3) motivation
- (4) imagination

9. Five-year-old Mohan has mental age of eight. What is his IQ?

- (1) 150
- (2) 160
- (3) 140
- (4) 135

10. Which IQ range is called trainable IQ level of mentally retarded children?

- (1) 70-79
- (2) 50-69
- (3) 36-49
- (4) 35 and below

11. Rorschach inkblot test is used to measure which of the following?

- (1) Personality
- (2) Intelligence
- (3) Interest
- (4) Aptitude

12. Which of the following is **not** the cause of forgetting?

- (1) Under-learning
- (2) Desire to remember
- (3) Mental conflict
- (4) Defective methods of remembering

13. The science which deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data is called

- (1) statistics
- (2) mathematics
- (3) geometry
- (4) probability

14. पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है?

- (1) गॉर्डन
- (2) शोनेल
- (3) बर्टन हॉल
- (4) सिरिल बर्ट

15. निम्न में से कौन-सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है?

- (1) विश्वसनीयता
- (2) वैधता
- (3) वस्तुनिष्ठता
- (4) अभिक्षमता

16. निम्न में से कौन-सा बुद्धि का सिद्धान्त नहीं है?

- (1) एक-तत्त्व सिद्धान्त
- (2) द्वि-तत्त्व सिद्धान्त
- (3) प्रत्यागमन का सिद्धान्त
- (4) बहुतत्त्व सिद्धान्त

17. निम्न में से कौन-सी एक अन्तःस्रावी ग्रन्थि नहीं है?

- (1) एड्रिनल ग्रन्थि
- (2) पीयूष ग्रन्थि
- (3) लार ग्रन्थि
- (4) थायरॉइड ग्रन्थि

18. पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है

- (1) ज्ञानेन्द्रिय अवस्था
- (2) औपचारिक संक्रिया की अवस्था
- (3) पूर्व-संक्रिया की अवस्था
- (4) मूर्त संक्रिया की अवस्था

19. शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन-सा है?

- (1) वंशानुक्रम
- (2) वातावरण
- (3) खेल तथा व्यायाम
- (4) उपरोक्त सभी

14. Who has given the concept of educational quotient for backward children?

- (1) Gordon
- (2) Schonell
- (3) Burton Hall
- (4) Cyril Burt

15. Which among the following is different from the characteristics of a good test?

- (1) Reliability
- (2) Validity
- (3) Objectivity
- (4) Aptitude

16. Which of the following is **not** the theory of intelligence?

- (1) Unifactor theory
- (2) Two-factor theory
- (3) Theory of regression
- (4) Multifactor theory

17. Which one of the following is **not** a ductless gland?

- (1) Adrenal gland
- (2) Pituitary gland
- (3) Salivary gland
- (4) Thyroid gland

18. According to Piaget, the second stage of cognitive development is

- (1) sensorimotor stage
- (2) formal operations stage
- (3) pre-operations stage
- (4) concrete operations stage

19. What is the factor influencing physical development?

- (1) Heredity
- (2) Environment
- (3) Sports and exercise
- (4) All of the above

20. बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन-सा है?

(1) $\frac{\text{मानसिक आयु}}{\text{वास्तविक आयु}} \times 100$

(2) $\frac{\text{वास्तविक आयु}}{\text{मानसिक आयु}}$

(3) $\frac{\text{वास्तविक आयु}}{\text{मानसिक आयु}} \times 100$

(4) $\frac{\text{मानसिक आयु}}{\text{वास्तविक आयु}} \times 100$

21. 'चितनशील सोच' की चर्चा इनमें से किसने की है?

(1) इयुवी

(2) रॉस

(3) वुडवर्थ

(4) ड्रेवर

22. आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन-सी शामिल नहीं है?

(1) अवलोकन

(2) प्रयोग

(3) सामान्यीकरण

(4) कल्पना

23. सीखी गयी बात को धारण करने और पुनःस्मरण करने में असफल होना

(1) विस्मरण है

(2) स्मरण है

(3) धारण है

(4) चिन्तन है

24. मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है, जो पायी जाती है

(1) केवल मनुष्यों में

(2) केवल बिल्लियों तथा चूहों में

(3) सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है

(4) केवल कलाकारों में

20. Which of the following is correct formula to calculate IQ?

(1) $\frac{MA}{CA} \times 100$

(2) $\frac{CA}{MA}$

(3) $\frac{CA}{MA} \times 100$

(4) $\frac{MA}{CA} \times 100$

21. Who among the following described 'reflective thinking'?

(1) Dewey

(2) Ross

(3) Woodworth

(4) Drever

22. Which is **not** included in the levels of inductive reasoning?

(1) Observation

(2) Experiment

(3) Generalization

(4) Imagination

23. Failure in retention and recall of learnt content is

(1) forgetting

(2) memory

(3) retention

(4) thinking

24. The main characteristic of basic instinct is that which is found only in

(1) human beings

(2) cats and rats

(3) all organisms and it is inborn and natural

(4) artists

25. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है?

- (1) अनुच्छेद 26
- (2) अनुच्छेद 15
- (3) अनुच्छेद 45
- (4) अनुच्छेद 21A

26. क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है?

- (1) कृशकाय (दुर्बल)
- (2) सुडौलकाय
- (3) गोलकाय
- (4) उपरोक्त सभी

27. टी० ई० टी० का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है?

- (1) बौद्धिक क्षमता
- (2) अभिक्षमता
- (3) अभिवृत्ति
- (4) मूल्य

28. संघनन का सिद्धान्त निम्न में से किसकी व्याख्या करता है?

- (1) अधिगम
- (2) स्मृति
- (3) अभिप्रेरणा
- (4) सृजनात्मकता

29. निम्न में से कौन-सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है?

- (1) अन्तर्दर्शन
- (2) बहिर्दर्शन
- (3) अवलोकन
- (4) प्रयोगीकरण

30. ऐल्बर्ट बण्डूरा निम्न में से किससे सम्बन्धित हैं?

- (1) सामाजिक अधिगम सिद्धान्त
- (2) व्यवहारवादी सिद्धान्त
- (3) संज्ञानात्मक विकास का सिद्धान्त
- (4) मनोवैज्ञानिक विकास

25. The right to free and compulsory education for children between age group of 6-14 has been included in the Indian Constitution as

- (1) Article 26
- (2) Article 15
- (3) Article 45
- (4) Article 21A

26. Kretschmer has classified the persons in which one of the following main types?

- (1) Asthenic
- (2) Athletic
- (3) Pyknic
- (4) All of the above

27. The purpose of TET is to measure which of the following?

- (1) Intelligence
- (2) Aptitude
- (3) Attitude
- (4) Values

28. Consolidation theory explains which of the following?

- (1) Learning
- (2) Memory
- (3) Motivation
- (4) Creativity

29. Which of the following is the most subjective method of educational psychology?

- (1) Introspection
- (2) Extrospection
- (3) Observation
- (4) Experimentation

30. Albert Bandura is associated with which of the following?

- (1) Social learning theory
- (2) Behavioural theory
- (3) Cognitive development theory
- (4) Psychosexual development

भाग—II / PART—II
भाषा—I (हिन्दी) / Language—I (HINDI)

31. 'परीसीमन' का विलोम है

- (1) ससीम
- (2) निरसीमन ✓
- (3) असीमन
- (4) ससीमन

32. 'घूसर' शब्द का पर्याय है

- (1) अश्व ✓
- (2) मेघ
- (3) गर्दभ ✓
- (4) अजा

33. 'धूर्तों अर्थात् जीवों द्वारा होने वाला (दुख)'—वाक्य के लिए एक शब्द है

- (1) आधिदैविक
- (2) आधिभौतिक ✓
- (3) आधिदैहिक ✓
- (4) आत्मघाती

34. 'ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे' का अर्थ है

- (1) जान जोखिम में डालना
- (2) बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते
- (3) उदंड व्यक्ति की दुष्टता
- (4) किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना

35. 'पंकज' में कौन-सा समास है?

- (1) द्वंद्व
- (2) द्विगु
- (3) कर्मधारय ✓
- (4) बहुव्रीहि ✓

36. अयोगवाह कहा जाता है

- (1) महाप्राण को
- (2) अनुस्वार एवं विसर्ग को ✓
- (3) संयुक्त व्यंजन को
- (4) अल्पप्राण को

37. एक ओर अजगरहि लखि एक ओर मृगराय।
विकल बटोही बीच ही पर्यो मूरछा खाय॥

इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है

- (1) रौद्र रस
- (2) वीर रस
- (3) भयानक रस ✓
- (4) करुण रस ✓

38. 'से' विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है?

- (1) कर्ता
- (2) कर्म
- (3) सम्प्रदान ✓
- (4) करण ✓

39. 'उसने नहाकर भोजन किया'—इस वाक्य में 'नहाकर' निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है?

- (1) संयुक्त क्रिया
- (2) प्रेरणार्थक क्रिया ✓
- (3) द्विकर्मक क्रिया
- (4) पूर्वकालिक क्रिया

40. निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है

- (1) ध्वनि साम्य विधि
- (2) अनुध्वनि विधि ✓
- (3) व्याख्या विधि
- (4) समवेत पाठ विधि

41. निम्नलिखित में अभिव्युत्पात्मक उद्देश्य है

- (1) स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना ✓
- (2) साहित्य का रसास्वादन करना
- (3) धैर्यपूर्वक सुनना ✓
- (4) भाषा और साहित्य में रुचि

42. हिन्दी साहित्य के इतिहास के संबंध में 'मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दोस्तान' किसने लिखा है?

- (1) जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ✓
- (2) सुमित कुमार चटर्जी ✓
- (3) गार्सा द तासी
- (4) धीरेन्द्र वर्मा

43. "विरहनी बावरी सी भई
ऊँची चढ़ि अपने भवन में टेरत हाय दई
ले अंचरा मुख अँसुवन पौछत उघरे गात सही।"

—किसकी पंक्ति है?

- (1) सहजोबाई
- (2) मीराबाई ✓
- (3) झीमा चारिणी
- (4) दयाबाई

44. हिन्दी का पहला पत्र है

- (1) उदंत मार्तण्ड ✓
- (2) इतिहास तिमिरनाशक
- (3) बनारस अखबार
- (4) हरिश्चन्द्र मैगजीन

45. सूफी संतों की शैली है

- (1) मर्सिया
- (2) मसनवी ✓
- (3) राजल
- (4) तर्जुमा

46. 'गुड़िया भीतर गुड़िया' के रचनाकार कौन हैं?

- (1) कृष्णा सोबती
- (2) मैत्रेयी पुष्पा ✓
- (3) प्रभा खेतान
- (4) उषा प्रियंवदा

47. 'सौ अजान एक सुजान' के रचनाकार का नाम है-

- (1) बदरीनारायण चौधरी
- (2) बालकृष्ण भट्ट ✓
- (3) बालमुकुन्द गुप्त
- (4) सरदार पूर्ण सिंह

48. गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ?

- (1) दशाश्वमेध घाट
- (2) अस्सी घाट ✓
- (3) राम घाट
- (4) मणिकर्णिका घाट

49. 'भक्तमाल' के रचनाकार हैं

- (1) नाभा दास ✓
- (2) केशव दास
- (3) विष्णु दास
- (4) सुन्दर दास

निर्देश (प्रश्न सं० 50-54) : दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाँटिए।

धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे-भले कामों का ज्ञान दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहा है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जायेगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे, उसे बिना स्वार्थ सोचे, झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े-बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सबने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है, वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है, वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता से होती है। झूठ बोलना कई रूपों में दिख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ-मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुँह देखी बातें बनाया करते हैं, पर करते वहीं हैं जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे घृणा करते हैं।

50. धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन-सी हैं?

- (1) कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना
- (2) धर्म का ज्ञान न होना
- (3) आलस्य की अधिकता
- (4) जानकारी की कमी

51. संसार के बड़े-बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है

- (1) उत्तम चरित्र को
- (2) सदाचार को
- (3) परोपकार को
- (4) अपने कर्तव्य को

52. 'निर्बलता' शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है

- (1) निर् + बल + ता
- (2) निर + बल + ता
- (3) निर + बलत + आ
- (4) निर + बल + अता

53. 'कायर' की भाववाचक संज्ञा है

- (1) अकायरता
- (2) कायरत्व
- (3) कायरपन
- (4) कायरता

54. 'अपना मतलब निकालने वाला' के लिए उचित शब्द क्या है?

- (1) स्वार्थी
- (2) स्वार्थपरता
- (3) स्वार्थपरक
- (4) कुटिल

55. कौन-सा वाक्य शुद्ध है?

- (1) खेतों में लम्बे-लम्बे घास उग आए
- (2) परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया
- (3) गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है
- (4) वृक्षों पर कोयल कूक रही है

56. 'विद्यार्थी' में कौन-सी संधि है?

- (1) दीर्घ संधि
- (2) वृद्धि संधि
- (3) गुण संधि
- (4) यण् संधि

57. कानन का पर्यायवाची शब्द है

- (1) पुष्प
- (2) विहिप
- (3) वन
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

58. 'वाक्य विग्रह' का अर्थ है

- (1) शब्दों को जोड़ना
- (2) वाक्य विग्रह करना
- (3) वाक्य खंडों को अलग-अलग करके उनका संबंध बताना
- (4) संधि और समास बताना

59. बिनु पग चले सुनै बिनु काना,
कर बिनु कर्म करै विधि नाना।

इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है

- (1) विभावना
- (2) विशेषोक्ति
- (3) असंगति
- (4) दृष्टांत

60. 'सुई' का तत्सम रूप क्या है?

- (1) सुजा
- (2) सूचि
- (3) सलाई
- (4) सूची

भाग—III / PART—III

भाषा-II (अंग्रेजी) / Language-II (ENGLISH)

Candidates should answer the questions from the following part only if they have opted for ENGLISH as LANGUAGE-II

61. 'To chew the cud' correctly means

- (1) to contrive against someone
- (2) to die on duty
- (3) to meditate
- (4) to inculcate virtues

Directions : Complete the sentences in the following questions (Question Nos. 62 to 64) with most appropriate choice.

62. He was very much ashamed _____ his mischief.

- (1) for
- (2) of
- (3) with
- (4) over

63. _____ he stood first, he would have gone to America.

- (1) If
- (2) Had
- (3) Have
- (4) Anyways

64. Of the sword and pen, the _____ is more powerful.

- (1) last one
- (2) later
- (3) latter
- (4) last

65. Which prefix can be used with the following words?

behave, guide, use

- (1) in
- (2) dis
- (3) mis
- (4) re

66. Choose the correct sentence.

- (1) The committee were one on this point.
- (2) The committee was one on this point.
- (3) The committee was divided on this point.
- (4) The committee have one on this point.

67. Which of the following is an example of simile?

- (1) I wandered lonely as a cloud.
- (2) Life is a dream.
- (3) Anxiety is sitting on her face.
- (4) A lie has no legs.

68. Change the following sentence into active voice :

The visitors were shown the newborn by the woman.

- (1) The newborn was shown to the visitors by the woman.
- (2) The woman has shown the newborn to the visitors.
- (3) The woman showed the visitors the newborn.
- (4) The woman might have shown the newborn.

69. Select the antonym for the word 'adverse'.

- (1) Hostile
- (2) Friendly
- (3) Inimical
- (4) Unwilling

70. Fill in the blank with correct word to complete the proverb :

Blood is _____ than water.

- (1) thinner
- (2) thicker
- (3) purer
- (4) precious

71. Bees are kept in

- (1) a pantry
- (2) a nursery
- (3) an apiary
- (4) an aquarium

72. The idiom 'green-eyed monster' means

- (1) to be jealous
- (2) to be sick
- (3) to be angry
- (4) to be blind

73. Select the sentence in which the article has been wrongly used.

- (1) He is a MA.
- (2) Twelve inches make a foot.
- (3) A pupil should obey his teacher.
- (4) He is a European.

74. Pick out the correct question tag for the following :

People shouldn't drink and drive, _____

- (1) should they?
- (2) shouldn't they?
- (3) isn't it?
- (4) shall they?

75. A sentence is divided into four parts (A), (B), (C) and (D). Point out the part that has an error :

- (A) You are learning English
- (B) for the last one year
- (C) but you show
- (D) no improvement at all.

- (1) A (2) B
(3) C (4) D

76. Give one-word substitution for the following :

The scientific study of insects

- (1) Criminology
- (2) Entomology
- (3) Mycology
- (4) Meteorology

77. Point out the correct direct speech for the following :

I asked why he was looking through the keyhole.

- (1) "Are you looking through the keyhole?" I said.
- (2) "Do not look through the keyhole," I said.
- (3) "Why are you looking through the keyhole?" I said.
- (4) "You are looking through the keyhole," I said.

78. Put the verbs in the brackets into the correct present tense :

My daughter never (write) to me so I never (know) what she (do).

- (1) My daughter never wrote to me so I never knew what she do.
- (2) My daughter never write to me so I never knew what she does.
- (3) My daughter never writes to me so I never know what she is doing.
- (4) My daughter never writes to me so I never knew what she does.

79. Pick out the correct synonym of the word 'cantankerous'.

- (1) Rash
- (2) Quarrelsome
- (3) Noisy
- (4) Disrespectful

80. Pick out the sentence that has a demonstrative adjective in it.

- (1) It is a twenty-kilometre walk.
- (2) This kind of question is often asked in examinations.
- (3) Each of them received ten rupees.
- (4) His written statement differs from his oral one.

Directions : Read the given passage carefully and answer the questions (Question Nos. 81 to 85) that follow by selecting the most appropriate option.

Work expands so as to fill the time available for its completion. The general recognition of this fact is shown in the proverbial phrase, "It is the busiest man who has time to spare". Thus, an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. An hour will be spent in finding the postcard, another hunting for spectacles, half an hour to search for the address, an hour and a quarter in composition and twenty minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar-box in the street. The total effort that would occupy a busy man for three minutes, all told, may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt, anxiety and toil.

81. What is the total time spent by the elderly lady in writing a postcard?

- (1) Three minutes
- (2) A full day
- (3) Four hours and five minutes
- (4) Half an hour

82. What happens when the time to be spent on some work increases?

- (1) The work is done smoothly.
- (2) The work is done leisurely.
- (3) The work consumes all the time.
- (4) The work needs additional time.

83. What does the expression 'pillar-box' stand for?

- (1) A box attached to the pillar
- (2) A box in the pillar
- (3) Box office
- (4) A pillar-type postbox

84. Who is the person likely to take more time to do work?

- (1) A busy man
- (2) An elderly person
- (3) A man of leisure
- (4) An exhausted person

85. Point out the most appropriate explanation of the sentence, "Work expands so as to fill the time available for its completion".

- (1) The more work there is to be done, the more the time needed.
- (2) Whatever time is available for a given amount of work, all of it will be used.
- (3) If you have more time, you can do more work.
- (4) If you have some important work to do, you should always have some additional time.

Directions : Read the given passage carefully and answer the questions (Question Nos. 86 to 90) that follow by selecting the most appropriate option.

Helicopters are very different from airplanes. They can do three things that airplanes cannot do. First, when airplanes move upward, they must also move forward, but helicopters can move straight up without moving ahead. Second, helicopters can fly backward, which airplanes cannot do. Third, helicopters can use their rotors to hover in the air, which is impossible for airplanes. Helicopters can perform actions that airplanes cannot, they are used for different tasks. Since helicopters can take off without moving forward, they do not need a runway for takeoff. They are used in congested areas where there is no room for airplanes or in isolated areas, which do not have airports. Because they can hover, they are used on fire-fighting missions to drop water on fires. They are used in logging operations to lift trees out of forests. Helicopters are used as air ambulances to airlift patients out of situations, which are difficult to reach by conventional ambulances. The police use helicopters to follow suspects on the ground or to search for cars on the ground. Of course, helicopters have military uses because of their design and capabilities.

86. The word 'congested' in the passage means

- (1) the place is roomy
- (2) the place has no place
- (3) the place can be accessed by police vans
- (4) the place has so much of smoke due to fire

87. A helicopter can hover while an airplane cannot, according to the passage. 'Hover' in the passage means

- (1) stay at one place in the air
- (2) move straight up in the air
- (3) go backward in the air
- (4) fly sideways

88. Point out the grammatical category of the word 'perform' in the passage.

- (1) Noun
- (2) Verb
- (3) Adverb
- (4) Helping verb

89. Why is a helicopter used as an ambulance?

- (1) Its movement can be manoeuvred easily.
- (2) It crosses all difficulties of traffic.
- (3) It reaches the inaccessible places easily.
- (4) It can fire-fight.

90. Point out the grammatical category of the word 'very' in the passage.

- (1) Adverb
- (2) Adjective
- (3) Noun
- (4) Verb

भाग—III / PART—III

भाषा—II (संस्कृत) / Language—II (SANSKRIT)

परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा—II का विकल्प संस्कृत चुना हो।

61. 'गुरुः शिष्यं पाठयति' वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा
- (1) गुरुणे शिष्यः पाठयते।
 - (2) गुरुणा शिष्यं पाठयते।
 - (3) गुरुणा शिष्यः पाठयते।
 - (4) गुरुणा शिष्यः पाठयति।
62. 'वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये' पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है
- (1) यमक
 - (2) अनुप्रास
 - (3) रूपक
 - (4) उपमा
63. 'बालक को लड़कू अच्छा लगता है'—इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा
- (1) बालकं मोदकं रोचते।
 - (2) बालकस्य मोदकं रोचते।
 - (3) बालकाय मोदकं रोचते।
 - (4) बालकात् मोदकं रोचते।
64. निम्न में से कौन-सा ग्रन्थ 'महाभारत' पर आश्रित नहीं है?
- (1) 'वेणीसंहारम्'
 - (2) 'नैषधीयचरितम्'
 - (3) 'स्वप्नवासवदत्तम्'
 - (4) 'शिशुपालवधम्'
65. अधोलिखित पदों में कौन-सा 'प्रगृह्य' संज्ञक है?
- (1) हरी
 - (2) विष्णु
 - (3) गङ्गे
 - (4) उपर्युक्त सभी
66. समस्तपद 'रूपवद्भार्यः' का विग्रह होगा
- (1) रूपवती च भार्या च
 - (2) रूपवती भार्या यस्य सः
 - (3) रूपवती भार्या यस्याः सा
 - (4) रूपवती भार्यः यस्य सः
67. हन् धातु, लट् लकार, प्रथम-पुरुष, बहुवचन का रूप है
- (1) हन्ति
 - (2) घ्नन्ति
 - (3) हन्सि
 - (4) हन्मि
68. 'अक्ष + ऊहिनी' में कौन-सी सन्धि होती है?
- (1) दीर्घ सन्धि
 - (2) गुण सन्धि
 - (3) वृद्धि सन्धि
 - (4) पररूप सन्धि
69. कौन-से स्वर ह्रस्व नहीं होते?
- (1) ई उ लृ ऋ
 - (2) ऋ लृ
 - (3) ए ओ ऐ औ
 - (4) अं अः
70. लभ् धातु, लोट् लकार, उत्तम पुरुष का एकवचन रूप है
- (1) लभामि
 - (2) लभानि
 - (3) लभै
 - (4) लभताम्
71. शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है?
- (1) पुस्तकों द्वारा
 - (2) श्रव्य-दृश्य सामग्री द्वारा
 - (3) कक्षा के वातावरण द्वारा
 - (4) फिल्मों के द्वारा

निर्देश : निम्नलिखित गद्यावतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 72 से 74 तक का सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए।

परोषाम् उपकरणमेव 'परोपकार' इति कथ्यते। परोपकरणं मानवानामेकः सात्त्विकः सद्गुणः स्वीकृतः। परोपकारसद्गुणेन मानवेषु सहयोग भावना वर्धते। यदि वयं परोषां जनानां उपकारं करिष्यामः तर्हि परोऽपि अस्माकं हितं विधास्यन्ति। परस्परोपकरणेनैव अस्माकं कल्याणं भवितुं शक्यते। जन-कल्याणायैव सत्पुरुषा मनसा, वाचा, कर्मणा च परोपकाररताः दृश्यन्ते। सत्पुरुषाणां सम्पत्तयः परजीवेभ्यः एव भवन्ति।

धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्त्वं विशदरूपेण वर्णितम्। सत्परोपकारी तु स एव भवति यः स्वार्थं विहाय परोषां हितसाधने रमते। अनेकानि उदाहरणान्यपि तत्र वर्तन्ते। महर्षिः दधीचि, रन्तिदेवं वा को न जानाति। प्रकृतिरपि परोपकाररता दृश्यते। नद्यः परार्थमेव जलं वहन्ति। वृक्षाः परहितायैव फलन्ति। गावः स्वदुग्धं परोभ्यः एव यच्छन्ति। परोपकाररूपं सद्गुणं सदैव उपार्जयेयुः। परोपकारभावनयैव अस्माकं, अस्माकं देशस्य च कल्याणं भवितुं शक्यते।

72. सत्पुरुषाणां सम्पत्तयः भवन्ति

- (1) स्व-पुत्रेभ्यः
- (2) स्व-मित्रेभ्यः
- (3) परजीवेभ्यः
- (4) स्व-वंशेभ्यः

73. 'सदैव' पद में सन्धि है

- (1) यण्
- (2) वृद्धि
- (3) गुण
- (4) अयादि

74. परोपकारस्य महत्त्वं विशदरूपेण वर्णितम्

- (1) भक्तिशास्त्रेषु
- (2) धर्मशास्त्रेषु
- (3) न्यायशास्त्रेषु
- (4) सांख्यदर्शनेषु

75. 'क्त' प्रत्यय की संज्ञा है

- (1) टि
- (2) निष्ठा
- (3) नदी
- (4) धि

76. 'लुट्' लकार का प्रयोग होता है

- (1) अनद्यतन भविष्यत् में
- (2) सामान्य भविष्यत् में
- (3) अनद्यतन भूत में
- (4) अनद्यतन भविष्यत् में

77. निम्न में से कौन-सा स्वर नहीं है?

- (1) अ
- (2) इ
- (3) ऋ
- (4) लृ

78. 'चक्रपाणिः' में कौन-सा समास है?

- (1) तत्पुरुष
- (2) बहुव्रीहि
- (3) द्विगु
- (4) द्वन्द्व

79. 'द्रक्ष्यतः' दृश् धातु का कौन-सा रूप है?

- (1) प्रथम पुरुष बहुवचन
- (2) प्रथम पुरुष द्विवचन
- (3) मध्यम पुरुष एकवचन
- (4) मध्यम पुरुष द्विवचन

80. 'कर्मवाच्य' में क्रिया किसके अनुसार होती है?

- (1) कर्ता
- (2) कर्म
- (3) वचन
- (4) लिङ्ग

81. 'सप्तचत्वारिंशत्' कौन-सी संख्या है?

- (1) 74 (चौहत्तर)
- (2) 47 (सैंतालिस)
- (3) 37 (सैंतीस)
- (4) 34 (चौतीस)

82. 'सङ्गात् सञ्जायते कामः' में सूत्र प्रवृत्त हुआ है

- (1) भुवः प्रभवश्च
- (2) जनिकर्तुः प्रकृतिः
- (3) आख्यातोपयोगे
- (4) पराजेरसोढः

83. 'पर्यध्ययनः' उदाहरण है

- (1) द्वितीया तत्पुरुष का
- (2) चतुर्थी तत्पुरुष का
- (3) कर्मधारय का
- (4) प्रादि तत्पुरुष का

84. 'ज्ञा' धातु लिट् लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप है

- (1) जज्ञे
- (2) जज्ञिरे
- (3) जज्ञिषे
- (4) जज्ञाहे

85. 'धूता' पात्र है

- (1) 'मृच्छकटिकम्' में
- (2) 'मुद्रारक्षसम्' में
- (3) 'मालविकाग्निमित्रम्' में
- (4) 'मालतीमाधवम्' में

86. गंगा-यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है

- (1) 'रघुवंश' में
- (2) 'कादम्बरी' में
- (3) 'किरातार्जुनीयम्' में
- (4) 'हर्षचरितम्' में

87. 'भवाच्छेदस्यम्बकपादपांसवः' में 'भवाच्छेदः' किसका विशेषण है?

- (1) त्र्यम्बक का
- (2) त्र्यम्बकपाद का
- (3) पांसवः का
- (4) पाद का

88. यमक अलङ्कार होता है

- (1) सार्थक वर्णसमूहों की पुनरावृत्ति
- (2) अनर्थक वर्णसमूहों की पुनरावृत्ति
- (3) एक सार्थक दूसरा अनर्थक वर्णसमूह की पुनरावृत्ति
- (4) उपर्युक्त सभी प्रकार के वर्णसमूहों की आवृत्ति

89. ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न है

- (1) स्पर्श व्यञ्जनों का
- (2) अन्तःस्थों का
- (3) ऊष्म वर्णों का
- (4) स्वरों का

90. 'राजा विप्राय गां ददाति' का वाच्य परिवर्तन होगा

- (1) राजा विप्राय गां दीयते।
- (2) राजा विप्रेण गां दीयते।
- (3) राजा विप्रेण गौः दीयते।
- (4) राजा विप्राय गौः दीयते।

23
1-3/2011

भाग—IV (A) / PART—IV (A)
गणित एवं विज्ञान / MATHEMATICS AND SCIENCE

परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने गणित एवं विज्ञान का विकल्प चुना हो
Candidates should answer the questions from the following part only if they have opted for MATHEMATICS and SCIENCE


91. चार-अंकीय बड़ी-से-बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो पूर्ण वर्ग हो।
(1) 9999 (2) 1899
(3) 9000 (4) 9801
92. जब $x^{13} + 1$ को $x - 1$ से भाग दिया जाए, तो शेष क्या बचेगा?
(1) 0 (2) 1
(3) 2 (4) -1
93. यदि A व B समुच्चय C के अरिक्त उपसमुच्चय हों, तो $A \cup (A \cap B)$ किसके बराबर है?
(1) $A \cap B$ (2) $A \cup B$
(3) A (4) B
94. एक गाँव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गाँव की जनसंख्या 4410 हो, तो दो वर्ष पूर्व उस गाँव की जनसंख्या कितनी थी?
(1) 4420 (2) 4430
(3) 4440 (4) 4000
95. एक कम्पनी ₹ 25 लाख की पूँजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य ₹ 100 हो, तो कम्पनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए।
(1) 20000
(2) 25000
(3) 30000
(4) 15000
96. ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का का?
(1) $\frac{4}{13}$ (2) $\frac{6}{13}$
(3) $\frac{8}{13}$ (4) $\frac{2}{5}$

91. Find the biggest 4-digit number which is a perfect square.
(1) 9999 (2) 1899
(3) 9000 (4) 9801
92. When $x^{13} + 1$ is divided by $x - 1$, then what is the remainder?
(1) 0 (2) 1
(3) 2 (4) -1
93. If A and B are non-empty subsets of a set C, then $A \cup (A \cap B)$ is equal to
(1) $A \cap B$ (2) $A \cup B$
(3) A (4) B
94. The population of a village increases by 5% yearly. If at present the population of the village is 4410, then what was the population before two years?
(1) 4420 (2) 4430
(3) 4440 (4) 4000
95. A company makes an advertisement of shares to collect a capital of ₹ 25 lacs. If the printed price of one share is ₹ 100, then find the number of shares circulated by the company.
(1) 20000
(2) 25000
(3) 30000
(4) 15000
96. From a pack of 52 playing cards, a card is drawn at random. What is the probability that the card is a spade or an ace?
(1) $\frac{4}{13}$ (2) $\frac{6}{13}$
(3) $\frac{8}{13}$ (4) $\frac{2}{5}$

रफ़ कार्य के लिए जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

(4, 5, 6, 7)
 $A \cup (A \cap B)$
 $U(5, 6)$
(4, 5, 6, 7)
13+3
 $\frac{16}{13}$
(5, 6, 9, 10)

97. दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तब क्रमित युग्म (x, y) है



- (1) (15°, 25°) (2) (10°, 15°)
 (3) (15°, 35°) (4) (40°, 35°)

98. x के किस मान के लिए निम्न आँकड़ों का बहुलक 27 है?

25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x,
 27, 26, 25, 25

- (1) 27 (2) 24
 (3) 25 (4) 26

99. यदि $x=2$, $y=1$, $z=-3$ हैं, तो $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ किसके बराबर है?

- (1) 6 (2) 2
 (3) 8 (4) 0

100. एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी?

- (1) 36 (2) 40
 (3) 16 (4) 24

101. तीन शून्येतर वास्तविक संख्याओं a, b, c के लिए यदि

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = \frac{2a - 3b + 5c}{k}$$


हो, तो k का मान है

- (1) 10 (2) 15
 (3) 20 (4) 25

102. यदि A और B कोई दो समुच्चय हों, जैसे कि $A \setminus B = A$ हो, तब $A \cap B$ है

- (1) \emptyset (2) A
 (3) B (4) $A \cup B$

97. In the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. Then the ordered pair (x, y) is



- (1) (15°, 25°) (2) (10°, 15°)
 (3) (15°, 35°) (4) (40°, 35°)

98. For what value of x, the mode of the following data is 27?

25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x,
 27, 26, 25, 25

- (1) 27 (2) 24
 (3) 25 (4) 26

99. If $x=2$, $y=1$, $z=-3$, then $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ equals

- (1) 6 (2) 2
 (3) 8 (4) 0

100. In a religious gathering, the ratio of number of ladies to that of gents was 3:2. When 20 more gents joined, the ratio was reversed. The number of ladies was

- (1) 36 (2) 40
 (3) 16 (4) 24

101. For three non-zero real numbers a, b, c if

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = \frac{2a - 3b + 5c}{k}$$

then the value of k is

- (1) 10 (2) 15
 (3) 20 (4) 25

102. If A and B be any two sets such that $A \setminus B = A$, then $A \cap B$ is

- (1) \emptyset (2) A
 (3) B (4) $A \cup B$

रफ़ कार्य के लिए जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

103. यदि समीकरण $x^2 - bx + c = 0$ के मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्याएँ हों, तो $b^2 - 4c$ है

- (1) 1 (2) -1
(3) 0 (4) 2

104. दो संख्याओं का म० स० और ल० स० क्रमशः 13 और 1989 हैं। यदि एक संख्या 117 हो, तो दूसरी संख्या है

- (1) 222 (2) 221
(3) 223 (4) 225

105. जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। उसका लाभ है

- (1) 20%
(2) $22\frac{7}{9}\%$
(3) $22\frac{2}{9}\%$

(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

106. यदि समीकरण $x^2 - px + 54 = 0$ के मूल 2:3 के अनुपात में हैं, तो p का मान है

- (1) 18 (2) 21
(3) -21 (4) 15

107. दो लम्बवृत्तीय शंकुओं की ऊँचाइयों का अनुपात 25:64 तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। उनके आयतनों का अनुपात है

- (1) 1:3 (2) 1:4
(3) 5:8 (4) 1:2

108. यदि $A = \{x: x \text{ शब्द BELOW का एक अक्षर है}\}$, $B = \{x: x \text{ शब्द WOOL का एक अक्षर है}\}$ तथा $C = A - B$ हो, तो C के उपसमुच्चयों की संख्या है

- (1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

109. एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 cm व 24 cm हैं। इसका परिमाण है

- (1) 120 cm (2) 34 cm
(3) 68 cm (4) 52 cm

103. If the roots of the equation $x^2 - bx + c = 0$ are two consecutive integers, then $b^2 - 4c$ is

- (1) 1
(3) 0

- (2) -1
(4) 2

104. The HCF and LCM of two numbers are 13 and 1989 respectively. If one of the numbers is 117, then the other number is

- (1) 222 (2) 221
(3) 223 (4) 225

105. Jatin buys an article for 10% less than its value and sells it for 10% more than its value. His gain is

- (1) 20%
(2) $22\frac{7}{9}\%$
(3) $22\frac{2}{9}\%$

(4) None of the above

106. If the roots of the equation $x^2 - px + 54 = 0$ are in the ratio 2:3, then the value of p is

- (1) 18 (2) 21
(3) -21 (4) 15

107. The ratio of the heights of two right circular cones is 25:64 and the ratio of their diameters is 4:5. The ratio of their volumes is

- (1) 1:3 (2) 1:4
(3) 5:8 (4) 1:2

108. If $A = \{x: x \text{ is a letter in word BELOW}\}$, $B = \{x: x \text{ is a letter in word WOOL}\}$ and $C = A - B$, then the number of subsets of C is

- (1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

109. The perimeter of a rhombus whose diagonals are 10 cm and 24 cm is

- (1) 120 cm (2) 34 cm
(3) 68 cm (4) 52 cm

रफ़ कार्य के लिए जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

110. एक सर्वेक्षण में प्रेक्षकों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षकों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य है

- (1) 2.82 (2) 3.80
(3) 3.75 (4) 4.25

111. 14 cm कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लम्बवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठ है

- (1) 924 cm^2 (2) 1134 cm^2
(3) 2464 cm^2 (4) 616 cm^2

112. 50 संख्याएँ दी गई हैं। हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य है

- (1) 49.5 (2) 53.5
(3) 46.5 (4) 56.5

113. दस प्रेक्षकों 5, 9, 14, 15, $x+1$, $2x-13$, 28, 30, 32, 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आँकड़ों की माधिका 24 है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- (1) 20 (2) 19
(3) 21 (4) 16

114. एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं। इसी मैदान को कितनी कम/ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी?

- (1) 15 गायें ज्यादा
(2) 11 गायें ज्यादा
(3) 11 गायें कम
(4) 15 गायें कम

115. निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (1) गणित की विभिन्न शाखाएँ, जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि, एक-दूसरे पर निर्भर हैं।
(2) अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है।
(3) बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है।
(4) बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है।

110. The number of observations in a survey is 40. If the mean of the first 10 observations is 4.5 and that of remaining is 3.5, then the mean of the whole survey is

- (1) 2.82 (2) 3.80
(3) 3.75 (4) 4.25

111. A right circular cylinder of maximum volume is cut from a solid cube of edge 14 cm. The total surface of the cylinder is

- (1) 924 cm^2 (2) 1134 cm^2
(3) 2464 cm^2 (4) 616 cm^2

112. There are 50 numbers. Each number is subtracted from 53 and the mean of the numbers so obtained is -3.5 . The mean of the given numbers is

- (1) 49.5 (2) 53.5
(3) 46.5 (4) 56.5

113. Ten observations 5, 9, 14, 15, $x+1$, $2x-13$, 28, 30, 32, 34 are written in ascending order. The median of the data is 24. Find the value of x .

- (1) 20 (2) 19
(3) 21 (4) 16

114. 44 cows can graze a field in 9 days. How many less/more cows will graze the same field in 12 days?

- (1) 15 cows more
(2) 11 cows more
(3) 11 cows less
(4) 15 cows less

115. Which of the following statements is true?

- (1) Different branches of Mathematics, viz., algebra, geometry, etc., are dependent on each other.
(2) Equations can be learnt without learning arithmetic. X
(3) Congruence of triangles can be learnt without learning algebra.
(4) Statistics can be learnt without learning algebra.

रफ़ कार्य के लिए जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

Handwritten calculations and diagrams in the rough work area. Includes a diagram of a cylinder and a calculation: $495 \times 5 = 2475$, $2475 - 53 \times 50 = 2680$.

116. निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन-सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है?

- (1) शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना
 (2) केवल कमियाँ देखकर उतना ही पढ़ाना
 (3) केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना
 (4) हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना


117. यदि A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है, तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है?

- (1) 25% (2) 18%
 (3) 20% (4) 15%

118. दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग $\frac{8}{15}$ है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए।

- (1) 1, 7 (2) 4, 4
 (3) 2, 6 (4) 3, 5

119. किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है :



यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अन्तर ₹4,000 है, तो परिवार की कुल आय कितनी होगी?

- (1) ₹ 50,000 (2) ₹ 40,000
 (3) ₹ 60,000 (4) ₹ 30,000

116. Which among the following is the best pedagogical way to teach Mathematics?

- (1) Motivate the learners to develop their existing capabilities
 (2) Find the weakness and teach only those parts
 (3) Find the gaps and address only them
 (4) Teach every student with the same approach


117. If A's salary is 25% more than that of B, then how much percent is B's salary less than that of A?

- (1) 25% (2) 18%
 (3) 20% (4) 15%

118. The sum of two natural numbers is 8. Determine the numbers if the sum of their reciprocals is $\frac{8}{15}$.

- (1) 1, 7 (2) 4, 4
 (3) 2, 6 (4) 3, 5

119. The expenditure of a family in a month is given in the figure below :



If the difference of expenditure between education and travel is ₹4,000, then what will be the total income of the family?

- (1) ₹ 50,000 (2) ₹ 40,000
 (3) ₹ 60,000 (4) ₹ 30,000

रफ़ कार्य के लिए जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

120. ऊष्मा का एस० आइ० मात्रक होता है

(1) जूल

(2) अर्ग

(3) कैलोरी

(4) वाट

121. यदि P , F तथा A क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं, तो

(1) $P = \frac{\vec{F}}{A}$

(2) $P = \frac{F}{A}$

(3) $\vec{P} = \frac{\vec{F}}{A}$

(4) $P = \frac{\vec{F}}{A}$

122. यदि 5 सेकण्ड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए, तो इस पर कार्यरत बल होता है

(1) 1 मात्रक

(2) 2 मात्रक

(3) 3 मात्रक

(4) 4 मात्रक

123. खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है, क्योंकि यह

(1) ऊष्मा का सुचालक होता है किन्तु विद्युत् का कुचालक

(2) ऊष्मा का कुचालक होता है किन्तु विद्युत् का सुचालक

(3) ऊष्मा तथा विद्युत् दोनों का सुचालक होता है

(4) ऊष्मा तथा विद्युत् दोनों का कुचालक होता है

124. पृथ्वी के चुम्बकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है

(1) 0°

(2) 45°

(3) 90°

(4) 135°

120. The SI unit of heat is

(1) joule

(2) erg

(3) calorie

(4) watt

121. If P , F and A represent pressure, force and area respectively, then

(1) $P = \frac{\vec{F}}{A}$

(2) $P = \frac{F}{A}$

(3) $\vec{P} = \frac{\vec{F}}{A}$

(4) $P = \frac{\vec{F}}{A}$

122. If the momentum of a body increases from 10 units to 25 units in 5 sec, then the force acting on it is

(1) 1 unit

(2) 2 units

(3) 3 units

(4) 4 units

123. Mica is used in cooking utensils because it is

(1) good conductor of heat but bad conductor of electricity

(2) bad conductor of heat but good conductor of electricity

(3) good conductor of both heat and electricity

(4) bad conductor of both heat and electricity

124. The angle of dip at magnetic pole of earth is

(1) 0°

(2) 45°

(3) 90°

(4) 135°

रफ़ कार्य के लिए जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

125. 10 m लम्बाई के ध्वनि तरंगों में 20 सम्पीडन तथा 20 विरलन हैं। तरंगों का तरंगदैर्घ्य है

- (1) 25 cm (2) 50 cm
(3) 75 cm (4) 100 cm

126. यदि पानी तथा काँच के परम अपवर्तनांक क्रमशः $\frac{4}{3}$ तथा $\frac{3}{2}$ हों, तो पानी के सापेक्ष काँच का अपवर्तनांक होता है

- (1) $\frac{8}{9}$ (2) $\frac{9}{8}$
(3) $\frac{4}{3}$ (4) $\frac{3}{4}$

127. घरेलू वायरिंग में 'भू-तार' का रंग कैसा होता है?

- (1) लाल
(2) हरा
(3) काला
(4) सफेद

128. किरखोफ का धारा-सम्बन्धी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है?

- (1) ऊर्जा
(2) संवेग
(3) आवेश
(4) द्रव्यमान

129. द्वि-आधारी संख्या $(1101)_2$ के तुल्य दशमलव संख्या होती है

- (1) 9 (2) 11
(3) 13 (4) 15

130. निम्नलिखित में से कौन-सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है?

- (1) पेट्रोल
(2) कोक
(3) पैराफिन मोम
(4) स्नेहक तेल

131. एक धातु M अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। M को पहचानिए।

- (1) Na (2) Mg
(3) Cu (4) Ca

125. Sound waves consist of 20 compressions and 20 rarefactions in 10 m length. The wavelength of the waves is

- (1) 25 cm (2) 50 cm
(3) 75 cm (4) 100 cm

126. If $\frac{4}{3}$ and $\frac{3}{2}$ be respectively the absolute refractive indices of water and glass, then the refractive index of glass relative to water is

- (1) $\frac{8}{9}$ (2) $\frac{9}{8}$
(3) $\frac{4}{3}$ (4) $\frac{3}{4}$

127. In household wiring, what is the colour of 'earth wire'?

- (1) Red
(2) Green
(3) Black
(4) White

128. Kirchoff's current law is based on the conservation of

- (1) energy
(2) momentum
(3) charge
(4) mass

129. The decimal equivalent of the binary number $(1101)_2$ is

- (1) 9 (2) 11
(3) 13 (4) 15


130. Which of the following is not a constituent of petroleum?

- (1) Petrol
(2) Coke
(3) Paraffin wax
(4) Lubricating oil

131. A metal M does not liberate hydrogen from acids but reacts with oxygen to give a black colour product. Identify M .

- (1) Na (2) Mg
(3) Cu (4) Ca

रफ़ कार्य के लिए जगह / SPACE FOR ROUGH WORK



132. निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है?

- (1) N_2 के 16 g
- (2) CO_2 के 16 g
- (3) CH_4 के 16 g
- (4) O_2 के 16 g

133. प्रयोगशाला में, एथिलीन और ऐसीटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है?

- (1) Br_2/H_2O
- (2) $KMnO_4/OH^-/H_2O$
- (3) टॉलेन्स अभिकर्मक
- (4) फेलिंग विलयन

134. निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है?

- (1) OF_2
- (2) Na_2O
- (3) NaO_2
- (4) NaO_3

135. प्राकृतिक रबर का एकलक होता है

- (1) निओप्रीन
- (2) आइसोप्रीन
- (3) टेरीलीन
- (4) ऑरलॉन

136. सर्वाधिक कथनांक वाला यौगिक है

- (1) n -पेन्टेन
- (2) आइसोपेन्टेन
- (3) निओपेन्टेन
- (4) आइसोब्यूटेन

137. ऐरोमैटिक यौगिक के अणुओं में π -इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है

- (1) $4n$
- (2) $4n+1$
- (3) $4n+2$
- (4) $2n+4$

138. रदरफोर्ड के ऐल्फा (α) कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप खोज किया गया

- (1) प्रोटॉन का
- (2) परमाणु में नाभिक का
- (3) इलेक्ट्रॉन का
- (4) परमाण्वीय द्रव्यमान का

132. Which of the following has maximum number of atoms?

- (1) 16 g of N_2
- (2) 16 g of CO_2
- (3) 16 g of CH_4
- (4) 16 g of O_2

133. In laboratory, ethylene and acetylene can be distinguished by

- (1) Br_2/H_2O
- (2) $KMnO_4/OH^-/H_2O$
- (3) Tollens' reagent
- (4) Fehling solution

134. In which of the following compounds, the oxidation number of oxygen is +2?

- (1) OF_2
- (2) Na_2O
- (3) NaO_2
- (4) NaO_3

135. The monomer of natural rubber is

- (1) Neoprene
- (2) Isoprene
- (3) Terylene
- (4) Orlon

136. Which compound has the highest boiling point?

- (1) n -Pentane
- (2) Isopentane
- (3) Neopentane
- (4) Isobutane

137. The number of π -electrons in the molecules of aromatic compound is

- (1) $4n$
- (2) $4n+1$
- (3) $4n+2$
- (4) $2n+4$

138. Rutherford's alpha (α) particle scattering experiment resulted into the discovery of

- (1) proton
- (2) nucleus in the atom
- (3) electron
- (4) atomic mass

रफ़ कार्य के लिए जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

139. निम्नलिखित में से कौन-सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है?

- (1) हवा
- (2) दूध
- (3) धुआँ
- (4) जेली

140. रेशमपालन क्या कहलाता है?

- (1) एपिकल्चर
- (2) पिसेकल्चर
- (3) सेरीकल्चर
- (4) ऐग्रीकल्चर

141. प्रोटिस्टा जगत से सम्बन्ध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं

- (1) एककोशीय तथा यूकैरियोटिक
- (2) एककोशीय तथा प्रोकैरियोटिक
- (3) बहुकोशीय तथा प्रोकैरियोटिक
- (4) बहुकोशीय तथा यूकैरियोटिक

142. निम्नलिखित में से कौन-सा वर्णक बीजों के अंकुरण से सम्बन्ध रखता है?

- (1) फाइटोक्रोम
- (2) प्लास्टोसायनिन
- (3) क्लोरोफिल
- (4) जैन्थोफिल

143. वह ऊतक, जो एक हड्डी (अस्थि) को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, कहलाता है

- (1) वसामय ऊतक
- (2) उपास्थि
- (3) उपकला
- (4) स्नायु

144. बीजों का जरायुज (विविपेरस) अंकुरण होता है

- (1) आम में
- (2) राइज़ोफोरा में
- (3) आलू में
- (4) गन्ने में

139. Which one of the following is not a heterogeneous mixture?

- (1) Air
- (2) Milk
- (3) Smoke
- (4) Jelly

140. Silk farming is known as

- (1) Epiculture
- (2) Pisciculture
- (3) Sericulture
- (4) Agriculture

141. All organisms belonging to the kingdom Protista are

- (1) unicellular and eukaryotic
- (2) unicellular and prokaryotic
- (3) multicellular and prokaryotic
- (4) multicellular and eukaryotic

142. Which of the following pigments is associated with the germination of seeds?

- (1) Phytochrome
- (2) Plastocyanin
- (3) Chlorophyll
- (4) Xanthophyll

143. The tissue that connects one bone with the other is called

- (1) adipose tissue
- (2) cartilage
- (3) epithelium
- (4) ligament

144. Viviparous germination of seeds occurs in

- (1) mango
- (2) rhizophora
- (3) potato
- (4) sugarcane

रफ़ कार्य के लिए जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

145. प्रकाश-संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है

- (1) कार्बन डाइऑक्साइड
- (2) जल
- (3) ग्लूकोज
- (4) क्लोरोफिल

146. रक्त का वह घटक, जो सम्पूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, है

- (1) ऐन्टीबॉडी
- (2) हेपैरिन
- (3) थ्रोम्बिन
- (4) हीमोग्लोबिन

147. लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किसमें पाई जाती हैं?

- (1) आमाशय
- (2) यकृत
- (3) अग्न्याशय
- (4) हृदय

148. एन्जाइम रासायनिक रूप से होते हैं

- (1) लिपिड
- (2) अम्ल
- (3) कार्बोहाइड्रेट
- (4) प्रोटीन

149. निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल विटामिन भी है?

- (1) फॉर्मिक अम्ल
- (2) ऐस्कॉर्बिक अम्ल
- (3) मैलिक अम्ल
- (4) पामिटिक अम्ल

150. यदि a , $a+2$, $a+4$ अविभाज्य संख्याएँ हों, तो a के कितने मान हैं?

- (1) एक
- (2) दो
- (3) तीन
- (4) तीन से अधिक

145. The source of oxygen liberated as byproduct during photosynthesis is

- (1) carbon dioxide
- (2) water
- (3) glucose
- (4) chlorophyll

146. The component of blood that prevents its clotting in intact blood vessels is

- (1) antibody
- (2) heparin
- (3) thrombin
- (4) haemoglobin

147. Islets of Langerhans are present in

- (1) stomach
- (2) liver
- (3) pancreas
- (4) heart

148. Enzymes are chemically

- (1) lipid
- (2) acid
- (3) carbohydrate
- (4) protein

149. Which of the following acids is also a vitamin?

- (1) Formic acid
- (2) Ascorbic acid
- (3) Maleic acid
- (4) Palmitic acid

150. If a , $a+2$, $a+4$ are prime numbers, then the number of values of a is

- (1) one
- (2) two
- (3) three
- (4) more than three

रफ़ कार्य के लिए जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

भाग—IV (B) / PART—IV (B)
सामाजिक अध्ययन/अन्य विषय / SOCIAL STUDIES/OTHER SUBJECTS

परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने सामाजिक अध्ययन/अन्य विषय का विकल्प चुना हो

Candidates should answer the questions from the following part only if they have opted for SOCIAL STUDIES/OTHER SUBJECTS

91. 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' शुरू किया गया था वर्ष
- (1) 1952 में
 - (2) 1955 में
 - (3) 1957 में
 - (4) 1960 में
92. भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढाँचे का सिद्धान्त दिया
- (1) शंकर प्रसाद के मामले में
 - (2) सज्जन सिंह के मामले में
 - (3) गोलकनाथ के मामले में
 - (4) केशवानंद भारती के मामले में
93. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत, राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है?
- (1) अनुच्छेद 52
 - (2) अनुच्छेद 108
 - (3) अनुच्छेद 200
 - (4) अनुच्छेद 213
94. भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक-मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं
- (1) राज्य सभा के सभी सदस्य
 - (2) संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
 - (3) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
 - (4) राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य
95. कौन-सा देश दक्षिण (सार्क) का सदस्य नहीं है?
- (1) भूटान
 - (2) नेपाल
 - (3) बांग्लादेश
 - (4) जापान
91. 'Community Development Programme' was started in the year
- (1) 1952
 - (2) 1955
 - (3) 1957
 - (4) 1960
92. The Supreme Court of India enunciated the Doctrine of Basic Structure of the Constitution of India in
- (1) Shankari Prasad Case
 - (2) Sajjan Singh Case
 - (3) Golaknath Case
 - (4) Kesavananda Bharati Case
93. Under which Article of the Indian Constitution, the Governor has the power to reserve a Bill for the President's assent?
- (1) Article 52
 - (2) Article 108
 - (3) Article 200
 - (4) Article 213
94. The Vice President of India is elected by the members of an electoral college consisting of
- (1) all the members of the Council of States
 - (2) all the members of both the Houses of the Parliament
 - (3) elected members of both the Houses of the Parliament
 - (4) elected members of the Council of States
95. Which country is not the member of SAARC?
- (1) Bhutan
 - (2) Nepal
 - (3) Bangladesh
 - (4) Japan

96. 'राजपूत पेंटिंग' के लेखक कौन हैं?

- (1) आनन्द के० कुमारस्वामी
- (2) राय कृष्ण दास
- (3) डॉ० मोती चन्द्र
- (4) डब्ल्यू० जी० आर्चर

97. लोक कला का सम्बन्ध है

- (1) क्षेत्रीय कला से
- (2) चित्रकला से
- (3) आधुनिक कला से
- (4) प्रागैतिहासिक कला से

98. ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं

- (1) ज्यामितीय आकारों को
- (2) ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को
- (3) वर्ग में बनी डिजाइन को
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

99. ऐपण का सम्बन्ध किस राज्य से है?

- (1) उत्तर प्रदेश
- (2) मध्य प्रदेश
- (3) महाराष्ट्र
- (4) उत्तराखण्ड

100. हिन्दुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है?

- (1) 22
- (2) 13
- (3) 12
- (4) 9

101. हिन्दुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं?

- (1) 12
- (2) 8
- (3) 7
- (4) 11

102. चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है?

- (1) धमार
- (2) तराना
- (3) ध्रुपद
- (4) खयाल

103. इनमें से कौन तबला वादक नहीं हैं?

- (1) पं० किशन महाराज
- (2) जाकिर हुसैन
- (3) रामदास शर्मा
- (4) अहमद जान थिरक्वा

104. प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए?

- (1) दिल्ली
- (2) बॉम्बे
- (3) कलकत्ता
- (4) मद्रास

96. Who is the writer of *Rajput Painting*?

- (1) Ananda K. Coomaraswamy
- (2) Rai Krishna Das
- (3) Dr. Moti Chandra
- (4) W. G. Archer

97. Folk art is associated with

- (1) regional art
- (2) painting
- (3) modern art
- (4) prehistorical art

98. Geometrical design is called

- (1) geometrical forms
- (2) the design made by geometrical forms
- (3) the design made in square
- (4) None of the above

99. Aipan is associated with which State?

- (1) Uttar Pradesh
- (2) Madhya Pradesh
- (3) Maharashtra
- (4) Uttarakhand

100. In total how many Shrutis are there in Hindustani Sangeet?

- (1) 22
- (2) 13
- (3) 12
- (4) 9

101. How many Shuddha and Vikrita Swaras in total are there in Hindustani Sangeet?

- (1) 12
- (2) 8
- (3) 7
- (4) 11

102. To which Gayaki is Char Taal used?

- (1) Dhamar
- (2) Taraana
- (3) Dhrupad
- (4) Khayal

103. Who among the following is not a Tabla player?

- (1) Pt. Kishan Maharaj
- (2) Zakir Hussain
- (3) Ram Das Sharma
- (4) Ahmed Jan Thirakwa

104. The First National Games were organized in

- (1) Delhi
- (2) Bombay
- (3) Calcutta
- (4) Madras

105. "आज भारत को गीता की नहीं, बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है।" यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है?

- (1) राधाकृष्णन्
- (2) स्वामी विवेकानन्द
- (3) प्लेटो
- (4) रूसो

106. खेल दिवस कब मनाया जाता है?

- (1) 25 अगस्त
- (2) 29 अगस्त
- (3) 30 अगस्त
- (4) 31 अगस्त

107. योग के सम्बन्ध में प्रमुख ग्रन्थ 'योग दर्शन' के लेखक कौन हैं?

- (1) महर्षि भरत
- (2) महर्षि नारद
- (3) महर्षि पतंजलि
- (4) महर्षि देवदत्त

108. 'ज़ीन' नामक प्रोटीन किस फसल से सम्बन्धित है?

- (1) धान
- (2) सोयाबीन
- (3) मक्का
- (4) जई

109. गाय की कौन-सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है?

- (1) गीर
- (2) जर्सी
- (3) सिंधी
- (4) थारपारकर

110. भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया है?

- (1) 9
- (2) 12
- (3) 15
- (4) 22

111. केन्द्रिक बीज की संतति है

- (1) प्रजनक बीज
- (2) आधारीय बीज
- (3) प्रमाणित बीज
- (4) पंजीकृत बीज

112. केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान स्थित है

- (1) हैदराबाद में
- (2) नई दिल्ली में
- (3) भोपाल में
- (4) लखनऊ में

105. "Today India does not need Gita but needs a football ground." This thought was given by which thinker?

- (1) Radhakrishnan
- (2) Swami Vivekananda
- (3) Plato
- (4) Rousseau

106. The Sports Day is celebrated on

- (1) 25th August
- (2) 29th August
- (3) 30th August
- (4) 31st August

107. Who is the author of the most prominent book on Yoga, *Yog Darshan*?

- (1) Maharshi Bharat
- (2) Maharshi Narad
- (3) Maharshi Patanjali
- (4) Maharshi Devadatta

108. 'Zein' protein is related to which crop?

- (1) Paddy
- (2) Soybean
- (3) Maize
- (4) Oat

109. Which breed of cow is of dual purpose?

- (1) Gir
- (2) Jersey
- (3) Sindhi
- (4) Tharparkar

110. India has been divided into how many Agro-climatic Zones?

- (1) 9
- (2) 12
- (3) 15
- (4) 22

111. The progeny of nucleus seed is

- (1) breeder seed
- (2) foundation seed
- (3) certified seed
- (4) registered seed

112. The Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants is situated in

- (1) Hyderabad
- (2) New Delhi
- (3) Bhopal
- (4) Lucknow

113. मारमलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है

- (1) केला
- (2) जामुन
- (3) माल्टा
- (4) बेल

114. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है

- (1) नई दिल्ली में
- (2) इलाहाबाद में
- (3) मैसूर में
- (4) लखनऊ में

115. जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है?

- (1) शर्करा
- (2) पेक्टिन
- (3) सल्फाइड
- (4) सल्फर डाइऑक्साइड

116. केसर प्राप्त किया जाता है

- (1) कलिका से
- (2) पत्ती से
- (3) पुष्प वर्तिकाग्र से
- (4) बाह्य-दलपुंज से

117. मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं?

- (1) 22
- (2) 26
- (3) 24
- (4) 28

118. टी० ए० बी० का टीका किस रोग से बचाव करता है?

- (1) तपेदिक
- (2) डिप्थीरिया
- (3) मियादी बुखार
- (4) काली खाँसी

119. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है?

- (1) 21 जून
- (2) 20 जून
- (3) 25 जून
- (4) 28 जून

113. The most suitable fruit for marmalade making is

- (1) banana
- (2) jamun
- (3) malta
- (4) bael

114. The Central Food Technological Research Institute is situated in

- (1) New Delhi
- (2) Allahabad
- (3) Mysore
- (4) Lucknow

115. Which preservative is used in jelly making?

- (1) Sugar
- (2) Pectin
- (3) Sulphite
- (4) Sulphur dioxide

116. Saffron is obtained from

- (1) bud
- (2) leaf
- (3) flower stigma
- (4) calyx

117. How many ribs are there in human body?

- (1) 22
- (2) 26
- (3) 24
- (4) 28

118. Which disease is prevented by TAB vaccine?

- (1) Tuberculosis
- (2) Diphtheria
- (3) Typhoid
- (4) Pertussis

119. On which day is International Yoga Day celebrated?

- (1) 21st June
- (2) 20th June
- (3) 25th June
- (4) 28th June

120. किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है?

- (1) ऊनी वस्त्र
- (2) सूती वस्त्र
- (3) रेशमी वस्त्र
- (4) नायलॉन वस्त्र

121. 'अष्टाध्यायी' के लेखक थे

- (1) वेदव्यास
- (2) पाणिनि
- (3) शुकदेव
- (4) वाल्मीकि

122. द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था?

- (1) उदयभद्र
- (2) महापद्मनन्द
- (3) शिशुनाग
- (4) कालाशोक

123. अकबर ने 'इबादत खाना' का निर्माण करवाया था

- (1) आगरा में
- (2) फतेहपुर सीकरी में
- (3) दिल्ली में
- (4) सिकंदरा में

124. आर्य समाज की स्थापना हुई थी वर्ष

- (1) 1865 में
- (2) 1870 में
- (3) 1875 में
- (4) 1880 में

125. इनमें से कौन काकोरी कांड से सम्बन्धित नहीं था?

- (1) रामप्रसाद बिस्मिल
- (2) राजेन्द्र लाहिड़ी
- (3) अशफाकउल्ला खाँ
- (4) सूर्य सेन

126. 'दीन-ए-इलाही' की स्थापना किसने की?

- (1) मुहम्मद गजनवी
- (2) हुमायूँ
- (3) अकबर
- (4) शेरशाह सूरी

127. ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था?

- (1) समुद्रगुप्त
- (2) चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य
- (3) हर्षवर्धन
- (4) स्कन्दगुप्त

120. In which clothes is resin starch used?

- (1) Woolen clothes
- (2) Cotton clothes
- (3) Silken clothes
- (4) Nylon clothes

121. Ashtadhyayi was written by

- (1) Vedavyasa
- (2) Panini
- (3) Shukadeva
- (4) Valmiki

122. The Second Buddhist Council was held during the reign of

- (1) Udayabhadr
- (2) Mahapadmananda
- (3) Shishunaga
- (4) Kalashoka

123. Akbar constructed 'Ibadat Khana' in

- (1) Agra
- (2) Fatehpur Sikri
- (3) Delhi
- (4) Sikandara

124. The Arya Samaj was founded in the year

- (1) 1865
- (2) 1870
- (3) 1875
- (4) 1880

125. Who among the following was not associated with the Kakori Case?

- (1) Ramprasad Bismil
- (2) Rajendra Lahiri
- (3) Ashfaqullah Khan
- (4) Surya Sen

126. Who is the founder of 'Din-i-Ilahi'?

- (1) Muhammad Ghaznavi
- (2) Humayun
- (3) Akbar
- (4) Sher Shah Suri

127. In whose reign did Hsuan Tsang come to India?

- (1) Samudragupta
- (2) Chandragupta Vikramaditya
- (3) Harshavardhana
- (4) Skandagupta

128. इन बादशाहों में से किसे 'कलन्दर' कहा जाता था?

- (1) बाबर
- (2) हुमायूँ
- (3) अकबर
- (4) शाहजहाँ

129. बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर-जनरल था

- (1) कर्जन
- (2) कैनिंग
- (3) मिन्टो
- (4) मेयो

130. कुँवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे?

- (1) बैरकपुर
- (2) जगदीशपुर
- (3) अवध
- (4) बिदूर

131. निम्नलिखित में से कौन-सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है?

- (1) विश्व का राजनैतिक मानचित्र
- (2) विश्व का प्राकृतिक मानचित्र
- (3) ग्लोब
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

132. भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है

- (1) भ्रमण विधि
- (2) वार्तालाप विधि
- (3) कहानी विधि
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

133. मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है

- (1) रेखाचित्रों से
- (2) रूढ़ चिह्नों से
- (3) वर्णमाला के अक्षरों द्वारा
- (4) थीमैटिक मानचित्रों से

134. U-आकार की घाटी का निर्माण होता है

- (1) हिमनदी द्वारा
- (2) नदी द्वारा
- (3) पवन द्वारा
- (4) सागरीय तरंग द्वारा

135. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है

- (1) सिडनी
- (2) कैनबरा
- (3) मेलबर्न
- (4) ब्रिसबेन

128. Who among the following emperors was called 'Qalandar' ?

- (1) Babur
- (2) Humayun
- (3) Akbar
- (4) Shah Jahan

129. The Governor-General who partitioned Bengal was

- (1) Curzon
- (2) Canning
- (3) Minto
- (4) Mayo

130. Kunwar Singh was the Zamindar of which State?

- (1) Barrackpore
- (2) Jagdishpur
- (3) Avadh
- (4) Bithoor

131. Which one of the following is the most suitable teaching aid to show proportionate size and shape of continents?

- (1) Political map of the world
- (2) Physical map of the world
- (3) Globe
- (4) None of the above

132. The suitable method of Geography teaching is

- (1) tour method
- (2) discussion method
- (3) story method
- (4) None of the above

133. A universal language of the map can be understood by the way of

- (1) sketch
- (2) conventional symbols
- (3) alphabets
- (4) thematic maps

134. U-shaped valley is formed by

- (1) glacier
- (2) river
- (3) winds
- (4) sea waves

135. The capital of Australia is

- (1) Sydney
- (2) Canberra
- (3) Melbourne
- (4) Brisbane

136. भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है

- (1) छत्तीसगढ़ में
- (2) झारखंड में
- (3) मध्य प्रदेश में
- (4) ओडिशा में

137. निम्नलिखित शैलों में से कौन-सा अवसादी शैल का उदाहरण है?

- (1) स्लेट
- (2) संगमरमर
- (3) शैल
- (4) ग्रेनाइट

138. पुच्छलतारे की पूँछ की दिशा सदैव होती है

- (1) सूर्य की ओर
- (2) सूर्य से दूर
- (3) उत्तर-पूर्व की ओर
- (4) दक्षिण-पूर्व की ओर

139. निम्नलिखित में से कौन-सा भ्रंश से सम्बन्धित है?

- (1) समपनति
- (2) नतिलम्ब घाटी
- (3) हॉगबैक
- (4) ग्राबेन

140. निम्नलिखित में से कौन-सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है?

- (1) आटाकामा
- (2) अरबिया
- (3) गोबी
- (4) कालाहारी

141. तापक्रम विलोमता का अर्थ है

- (1) बढ़ती ऊँचाई के साथ घटता तापक्रम
- (2) बढ़ती ऊँचाई के साथ बढ़ता तापक्रम
- (3) बढ़ती ऊँचाई के साथ स्थिर तापक्रम
- (4) बढ़ती ऊँचाई के साथ अस्थिर तापक्रम

142. निम्नलिखित जलाशयों में से कौन-सा रिहन्द परियोजना से सम्बन्धित है?

- (1) गाँधी सागर
- (2) गोविन्द बल्लभ पंत सागर
- (3) जवाहर सागर
- (4) गोविन्द सागर

143. शिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है

- (1) जम्मू एवं कश्मीर का
- (2) उत्तराखण्ड का
- (3) सिक्किम का
- (4) हिमाचल प्रदेश का

136. Bhilai Steel Plant is located in

- (1) Chhattisgarh
- (2) Jharkhand
- (3) Madhya Pradesh
- (4) Odisha

137. Which one of the following rocks is an example of sedimentary rock?

- (1) Slate
- (2) Marble
- (3) Shale
- (4) Granite

138. The tail of a comet always points

- (1) towards the sun
- (2) away from the sun
- (3) towards north-east
- (4) towards south-east

139. Which one of the following is associated with fault?

- (1) Anticlinorium
- (2) Strike valley
- (3) Hogback
- (4) Graben

140. Which one of the following is not a tropical desert?

- (1) Atacama
- (2) Arabian
- (3) Gobi
- (4) Kalahari

141. Inversion of temperature means

- (1) decrease of temperature with height
- (2) increase of temperature with height
- (3) constant temperature with height
- (4) fluctuating temperature with height

142. Which one of the following reservoirs is associated with Rihand Project?

- (1) Gandhi Sagar
- (2) Govind Ballabh Pant Sagar
- (3) Jawahar Sagar
- (4) Govind Sagar

143. Shipki La is the famous mountain pass of

- (1) Jammu and Kashmir
- (2) Uttarakhand
- (3) Sikkim
- (4) Himachal Pradesh

144. सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषयवस्तु के साथ-साथ ज्ञान होना चाहिए
- (1) शिक्षा के उद्देश्यों का
 - (2) शिक्षण विधियों का
 - (3) शिक्षण तकनीक का
 - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
145. भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है
- (1) कैलेंडर
 - (2) मानचित्र
 - (3) फ्लैश कार्ड
 - (4) बैरोमीटर
146. भारतीय संविधान का कौन-सा भाग मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित है?
- (1) भाग I
 - (2) भाग II
 - (3) भाग III
 - (4) भाग IV
147. पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन-सा संशोधन किया गया?
- (1) 42वाँ संशोधन
 - (2) 44वाँ संशोधन
 - (3) 73वाँ संशोधन
 - (4) 86वाँ संशोधन
148. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है
- (1) न्यूयॉर्क में
 - (2) लंदन में
 - (3) हेग में
 - (4) पेरिस में
149. जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है?
- (1) राज्य सूची
 - (2) संघ सूची
 - (3) समवर्ती सूची
 - (4) अवशिष्ट विषय
150. निम्नलिखित में से कौन-सा निदेशक सिद्धान्त विदेश नीति से सम्बन्धित है?
- (1) अनुच्छेद 48
 - (2) अनुच्छेद 49
 - (3) अनुच्छेद 50
 - (4) अनुच्छेद 51

144. The teacher of Social Studies should have the knowledge of the subject matter as well as
- (1) educational objectives
 - (2) teaching methods
 - (3) teaching technology
 - (4) None of the above
145. The most useful teaching material for Geography is
- (1) calendar
 - (2) map
 - (3) flash card
 - (4) barometer
146. Which Part of the Indian Constitution deals with the Fundamental Rights?
- (1) Part I
 - (2) Part II
 - (3) Part III
 - (4) Part IV
147. Which one of the following Amendments of the Constitution of India deals with the issue of strengthening of the Panchayati Raj?
- (1) 42nd Amendment
 - (2) 44th Amendment
 - (3) 73rd Amendment
 - (4) 86th Amendment
148. The Office of the International Court of Justice is situated in
- (1) New York
 - (2) London
 - (3) Hague
 - (4) Paris
149. Population control and family planning is listed in which Schedule in the Indian Constitution?
- (1) The State List
 - (2) The Union List
 - (3) The Concurrent List
 - (4) The Residual Subjects
150. Which one of the following Directive Principles is related to the foreign policy?
- (1) Article 48
 - (2) Article 49
 - (3) Article 50
 - (4) Article 51